

मेघ



01 से 09 मई- सप्ताह के शुरु में आपको परिवार में शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। माता के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये आपको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती है। मध्य में संतान की सफलता आपको खुशी का अनुभव करायेगी। सप्ताहांत के दिनों में लंबित कार्यों को पूरा करने के अवसर बनेंगे।

10 से 16 मई- सप्ताह के शुरुआत में माता-पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या इनके साथ रिश्ते में कुछ कड़वाहट होने के कारण आपको तनाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। आपको भाग्य का पहले से अधिक सहयोग प्राप्त होगा। अंतिम भाग पेशेवर कार्यों के लिए सुखद बना हुआ है। आप **महाकाल महामृत्युंजय दीक्षा** आत्मसात करें, जिससे जीवन निर्विघ्न रूप से गतिशील रहेगा। **न्यौ. ₹ 1500/-**

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत आर्थिक पक्ष से उत्कृष्ट रहेगी। सप्ताह के मध्य में महत्वपूर्ण कार्यों की विफलता से आपकी खुशी, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ध्यान और व्यायाम कर आप चंद्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग मानसिक शांति, आत्म विश्वास और सामान्य स्वास्थ्य की बहाली के लिए अनुकूल है।

24 से 31 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपकी समृद्धि, परिवार में एकता और अखंडता के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। आपका आत्म विश्वास सप्ताह भर बरकरार रहेगा। परन्तु सप्ताहांत में मामूली मानसिक तनाव हो सकता है।

शुभ तिथियां: 08, 10, 25, 31

वृष



01 से 09 मई- सप्ताह आरम्भ में आपके पारिवारिक माहौल में सुधार होगा। सप्ताह का मध्य भाग आपकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता, माता की सेहत और घरेलू मुद्दों के लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पायेंगे। बड़े हुये खर्च भी आपकी चिंता बढ़ायेंगे। शेष भाग में आपको संतान से जुड़े तनावों से राहत मिलेगी। शेयर बाजार में हानि की संभावनायें बन रही हैं। आप **सर्व बाधा निवारण दीक्षा ग्रहण** करें। जिससे जीवन में प्रतिकूल स्थितियों का प्रभाव नहीं होगा।

न्यौ. ₹ 1500/-

10 से 16 मई- सप्ताह के आरम्भ में आपके वैवाहिक जीवन का आनंद उत्कृष्ट बना रहेगा। लेकिन आपको इस समय में अपने जीवन साथी की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में आपको कुछ निराशा का अनुभव होगा। सप्ताह के शेष दिनों में यात्राओं पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं।

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको अपनी प्रगति से जुड़ी कोई खबर प्राप्त हो सकती है। यह आपके परिवार को प्रसन्नता देगी। सप्ताह के मध्य में आपको अपने बड़े भाई-बहनों का समर्थन, सहयोग और स्नेह मिलेगा। सप्ताहांत आपकी प्रसन्नता के लिये अनुकूल नहीं रहेगा। आप मिजाज बदलाव की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं।

24 से 31 मई- सप्ताह के शुरुआत की स्थिति प्रसन्नता और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दर्शा रही है। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सप्ताह भर ठीक रहेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। शेष दिनों में आपको परिवार के सहयोग से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे।

शुभ तिथियां: 04, 09, 17, 23

मिथुन



01 से 09 मई- सप्ताह के शुरुआत की अवधि वित्तीय लाभ के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग की अवधि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुकूल है। आपको कठिन समय में लोगों की मदद मिलेगी। सप्ताह का अंतिम भाग संकेत दे रहा है कि आय में निरंतर वृद्धि होगी। आप अपने पैतृक स्थान, घर और वाहन आदि पर धन खर्च करेंगे।

10 से 16 मई- सप्ताह के शुरुआत की अवधि शत्रु, मुकदमेबाजी और ऋण से संबन्धित मुद्दों से निपटने के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको वांछित प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य दिन दांपत्य जीवन में सौहार्द बनाए रखने के लिए अच्छे रहेंगे साथ ही साझेदार भी पहले से अधिक खुश रहेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग सेहत के लिए शुभ नहीं रहेगा। आप **रोगनाशक दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे मन व देह पूर्ण रूप से चैतन्य व जाग्रत बन सके। **न्यौ. ₹ 1500/-**

17 से 23 मई- सप्ताह के आरम्भ के दिनों में आपके यात्राओं पर जाने की संभावनायें बन रही हैं। आपके पिता का समर्थन और प्रोत्साहन आपको आत्म विश्वास बनायें रखने में सहयोग करेगा। सप्ताह का मध्य भाग पदोन्नति और हस्तांतरण की संभावनाओं का संकेत दे रहा है। सप्ताह के शेष दिनों में लाभ औसत स्तर के रहेंगे।

24 से 31 मई- सप्ताह के आरम्भ की अवधि में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से वित्तीय घाटा, ऊर्जा और धन का अनावश्यक व्यय हो सकता है। सप्ताह के शेष दिनों में सुस्ती, थकान, शारीरिक कमजोरी, आत्म विश्वास और ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसके अलावा धन की और परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी।

शुभ तिथियां: 03, 04, 12, 27



कर्क



सिंह



कन्या

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरुआत में आप सेहत, शोध कार्य, प्रशासनिक कौशल और मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए आवश्यक कदम लेंगे। सप्ताह के मध्य में परिवार में सद्भाव और शांति का माहौल आपको उत्साहित और विश्वासी बनाये रखेगा। सप्ताह के शेष दिन व्यापार की योजना बनाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं।

10 से 16 मई- सप्ताह के शुरुआत में जीवनसाथी के साथ आपकी बहुत अधिक अनुकूलता रहेगी। आपके साझेदार आपके लिए सक्षम साबित होंगे। सप्ताह के मध्य दिनों में आप अपनी ऊर्जा का व्यय ऋण, रोग और कानूनी विवादों से सम्बन्धित मुद्दों से निपटने में करेंगे। इसके कारण आपको अत्यधिक थकावट हो सकती है। सप्ताह के अन्तिम भाग में जीवनसाथी के साथ बेहतर सामंजस्य रहेगा।

17 से 23 मई- सप्ताह के शुरुआत की अवधि आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं रहेगी। परिस्थितियाँ विपरीत बनी हुई हैं अतः सतर्क रहें। सप्ताह का मध्य भाग व्यावसायिक यात्राओं और धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग कार्यों के लिए उत्तम बना हुआ है। आपके व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी।

24 से 31 मई- सप्ताह के शुरु के दिनों में देवी काली की पूजा करना हानिकारक ग्रहों के प्रभाव पर नियंत्रण पाने में फायदेमंद साबित होगा। इससे वित्तीय लाभ भी अधिक होने की संभावना बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं हैं। आपके खर्च नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। आप **शुभमंगलमय चेतना वृद्धि महाकाली दीक्षा** ग्रहण करें, जीवन में शुभता की वृद्धि होगी। **न्यौ. ₹ 1500/-**

शुभ तिथियाँ: 02, 05, 13, 24

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरुआत दिनों में मन की अशांति, वित्तीय घाटे और मानसिक तनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आप अपनी सारी ऊर्जा भाग्योदय के लिए प्रयोग करेंगे। सप्ताह के शेष हिस्से में परिवार से संबंधित कुछ मुद्दों से निपटने में तनाव रहेगा, आपका मुख्य प्रयास पारिवारिक शांति और समृद्धि को बनायें रखने का रहेगा।

10 से 16 मई- सप्ताह के शुरु में संकेत मिल रहे हैं कि आपको कुछ घरेलू मुद्दों की वजह से मानसिक अशांति परेशान कर सकती है। मध्य भाग में कुछ पेट संबंधी विकार हो सकता है। अचानक से बच्चों के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में शत्रु, ऋण और रोग से संबंधित मुद्दों को हल करने में परेशान रहेंगे। आप **धूमावती शत्रु मर्दन दीक्षा** ग्रहण करें, जीवन से रोग, शोक, दुख, बाधा दूर होगी। **न्यौ. ₹ 1500/-**

17 से 23 मई- सप्ताह के शुरु में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य दिन आपके स्वास्थ्य और मन की स्थिति के लिए अशुभ हैं, लेकिन कार्यों के हालत में सुधार होने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

24 से 31 मई- सप्ताह के शुरु की अवधि आपके पेशेवर जीवन के लिए उत्कृष्ट साबित होगी। सप्ताह के शेष दिन आपके बच्चों के स्वास्थ्य और मन की स्थिति के लिए शुभ नहीं है। आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चरम पर होगी। यात्राओं का योग बन रहा है, परन्तु कुछ खास धन लाभ अथवा कार्य-व्यापार लाभ प्राप्त होने की संभावना कम ही है।

शुभ तिथियाँ: 06, 09, 15, 22

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरु की अवधि धन आगमन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए शुभ है परन्तु सेहत के लिए यह समय औसत रहेगा। सप्ताह के मध्य दिन स्वास्थ्य, खुशी, प्रतिरक्षा, ऊर्जा, मानसिक शांति, धैर्य और आत्मविश्वास में कमी के संकेत दे रहा है। सप्ताह के शेष दिनों में सेहत और आत्मविश्वास को बनाये रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे।

10 से 16 मई- सप्ताह की शुरुआत सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ प्रतीत हो रही है। लेकिन अपेक्षित उत्साह और आत्मविश्वास की आपमें कमी रहेगी। सप्ताह के मध्य दिनों में आप मां के खराब स्वास्थ्य की वजह से चिंतित और परेशान रहेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग बच्चों, स्वास्थ्य और भावनात्मक सम्बन्धों से सम्बन्धित कुछ अनावश्यक चिंता होने की संभावनाएं दे रहा है।

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत में शत्रु, ऋण और रोग से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने में परेशान रहेंगे। सप्ताह के मध्य के दिनों में संकेत मिल रहा है कि दांपत्य जीवन में अनुकूलता न रहने से आपको कुछ मुद्दों में असफलता मिल सकता है। सप्ताह का शेष भाग अधिक निराशाजनक रहेगा। आप **शिव- गौरी दाम्पत्य सुख प्राप्ति दीक्षा** ग्रहण करें। जिससे गृहस्थ जीवन में अनुकूलताओं की प्राप्ति होगी। **न्यौ. ₹ 1500/-**

24 से 31 मई- यह सप्ताह आपके लिए सबसे अच्छा सप्ताह होगा। सप्ताह की शुरुआत देवी काली की पूजा के लिए शुभ है। सप्ताह के मध्य भाग में वरिष्ठ अधिकारियों का छुपा हुआ सहयोग प्राप्त होगा। अंतिम भाग जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से धन अर्जित करने के लिए फायदेमंद साबित होगा।

शुभ तिथियाँ: 01, 03, 09, 14



01 से 09 मई- सप्ताह के शुरु के दिन व्यावसायिक पक्ष में उन्नति के लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के मध्य दिनों में निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी। सप्ताह का शेष भाग आपके स्वास्थ्य और खुशी के लिए अनुकूल नहीं है। शारीरिक ऊर्जा की कमी के कारण आप मानसिक अशान्ति का अनुभव करेंगे और इसके कारण आपको अत्यधिक निराशा होगी। आप **बगलामुखी रोग-शोक शमन दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे सुस्थितियों की प्राप्ति होगी।

न्यौ. ₹ 1500/-

10 से 16 मई- सप्ताह की शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि आपकी सारी ऊर्जा, धन निवेश और जीवन शैली, पारिवारिक जीवन की एकता, अखंडता और परिवार की समृद्धि के चारों ओर रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप सक्रिय रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। सप्ताह के शेष भाग में अपने पैतृक स्थान और माँ के साथ जुड़ाव रहेगा। इस समय आपको कुछ मानसिक तनाव भी होगा।

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपको संतान, स्वास्थ्य और भावनात्मक संबंधों से सम्बन्धित चिंता परेशान कर सकती है। सप्ताह के मध्य दिनों में शत्रु अधिक प्रबल रहेंगे। ऋण और कानूनी मुद्दे व्यर्थ के दबाव का कारण बन सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में वैवाहिक आनंद प्राप्ति की उम्मीद बन रही है परन्तु यह अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहेगी।

24 से 31 मई- सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास और धैर्य के लिए बहुत बुरा रह सकता है। इस समय की ग्रह स्थिति आपके लिए असहनीय, निराशापूर्ण और हताशापूर्ण बनी हुई है। शेष दिनों में आपका आत्म विश्वास और कार्यों की प्रगति सही रहेगी।

शुभ तिथियां: 08, 11, 27, 29

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरु का समय आपके भाग्य धन आगमन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग वरिष्ठ अधिकारियों के पक्ष से अनुकूल रहेगा। कार्यों में शीघ्र प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के शेष दिन व्यापार, आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और अधिक लाभ कमाने के लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह भर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा।

10 से 16 मई- सप्ताह आरम्भ में यह संकेत मिल रहा है कि आप विश्वास के साथ शत्रुओं और खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक आय में बढ़ोत्तरी होगी। आप परिवार की वांछित समृद्धि से संतुष्ट रहेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग सामाजिक गतिविधियों में आपकी बड़ी सक्रियता को दर्शा रहा है।

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपका अपने पैतृक स्थान और माँ के साथ जुड़ाव रहेगा। इस समय आपको कुछ मानसिक तनाव भी होगा। सप्ताह के मध्य में भाग्य के सहयोग से व्यावसायिक जीवन और आय प्राप्ति के लिए शुभ रहेगा। सप्ताह का शेष भाग संकेत दे रहा है कि आप स्वास्थ्य समस्याओं, ऋण और मुकदमेबाजी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

24 से 31 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपमें आत्म विश्वास कुछ कम रहेगा। सप्ताह के मध्य में कुछ मूड सम्बन्धित समस्याएँ रहेंगी और आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के शेष भाग के लिए यात्राएँ फायदेमंद होकर शुभ रहेंगी। आप **सर्व दुःख भंजन दीक्षा** ग्रहण करें, जिससे जीवन की अस्थिरता का शमन होगा और आप सर्व सफलता की प्राप्ति कर सकेंगे।

न्यौ. ₹ 1500/-

शुभ तिथियां: 03, 07, 13, 28

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरुआत की अवधि आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आत्मविश्वास के लिए शुभ नहीं है। आपको महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में यात्रा पर जाना अनुकूल रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग नाम और प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ रहेगा। आजीविका क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए योजना बनाने के लिए यह सही समय है। आप **सर्व कार्य सिद्धि दीक्षा** ग्रहण करें, जीवन में सुचेतनाओं का विस्तार होगा।

न्यौ. ₹ 1500/-

10 से 16 मई- सप्ताह के शुरुआत में अधिक मानसिक तनाव, निराशा और हताशा की स्थिति रहने से महत्वपूर्ण कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का मध्य प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य की प्राप्ति, रोग प्रतिरक्षा और व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप परिवार कल्याण के कार्यों को बेहद जिम्मेदारी से पूरा करेंगे।

17 से 23 मई- सप्ताह के आरम्भ की अवधि सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ है। ये गतिविधियाँ आपको शत्रुओं और कानूनी मुद्दों पर विजय प्राप्त करने में सहयोग देगी। सप्ताह के शेष दिनों में आय क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी।

24 से 31 मई- सप्ताह के आरम्भ से ही विश्वास के साथ आप अपने शत्रुओं और खर्चों को रोकेंगे। यात्राओं पर जाना आपके लिए सुखद रहेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने दांपत्य जीवन में अत्यधिक संलग्न रहेंगे। भागीदार भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप और आपके जीवनसाथी के बीच उत्तम तालमेल रहेगा। सप्ताह के शेष दिन आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास और कार्य कुशलता के लिए शुभ रहेंगे।

शुभ तिथियां: 04, 09, 21, 25



मकर



कुंभ



मीन

01 से 09 मई- सप्ताह आरम्भ में आपके वैवाहिक जीवन में उत्साह और आनंद उच्च स्तर पर रहेगा। सप्ताह के मध्य में सेहत में कमी होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह को अंतिम भाग में किसी पर्यटन स्थल की यात्रा करने के संयोग बन सकते हैं।

10 से 16 मई- सप्ताह के आरम्भ में आपके कार्यों में प्रगति के संकेत बन रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति व संतान सुख की प्राप्ति के मजबूत संकेत प्राप्त हो रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आपके अचानक तनाव हो सकता है। आपके वित्तीय स्थिति में गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका घरेलू सुख और परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव भी प्रभावित हो सकता है। आप **चतुर्दिक सफलता प्राप्ति विनायक दीक्षा** ग्रहण करें, जीवन शुभ-लाभ से युक्त होगा। **न्यौ. ₹ 1500/-**

17 से 23 मई- सप्ताह आरम्भ में संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक दायित्वों का आप कुशलता से निर्वाह करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में संकेत मिल रहे हैं कि कुछ मानसिक परेशानियों के रहते आप खुश नहीं रहेंगे।

24 से 31 मई- सप्ताह आरम्भ में संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। आपके भावनात्मक सम्बन्ध अचानक से मजबूत होंगे। सप्ताह मध्य में आपको बैंकरों को रिश्वत देने से बचना होगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल न हों। सप्ताह के अंतिम भाग में संकेत मिल रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा।

शुभ तिथियां: 03, 07, 11, 22

01 से 09 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। आप अपने विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा और अपने ऋणों का भुगतान करने से संबंधित रणनीतियों में व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आप वैवाहिक जीवन में मधुरता की उम्मीद कर सकते हैं। शेष भाग में कुछ बाधाओं के कारण कार्यसिद्धि में देरी हो सकती है। आप **चण्ड-मुण्ड धारिणी छिन्नमस्ता दीक्षा** ग्रहण करें, जीवन सुचेतनाओं से आप्लावित होगा।

न्यौ. ₹ 1500/-

10 से 16 मई- सप्ताह की शुरुआत में तरक्की और सफलता की खबर मिल सकती है। यह आपको अधिक प्रभावशाली बनाएगी। सप्ताह मध्य की अवधि आपकी आय और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल है। आय के स्रोत मजबूत होने की संभावना बन रही है। शेष भाग में खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं।

17 से 23 मई- सप्ताह आरम्भ में आपके मन पर अतिरिक्त दबाव, सुखों और पारिवारिक सदस्यों में स्नेह की कमी रहेगी। सप्ताह के मध्य में वित्तीय स्थिति प्रबल, मानसिक शांति और परिवार में सद्भाव की बेहतर संभावनाएं रहेंगी। सप्ताह के शेष भाग में परिजनों और सामाजिक जीवन में संबंध बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

24 से 31 मई- सप्ताह के आरम्भ में स्थिति तनावपूर्ण, थकाऊ व कड़वाहट का माहौल रहेगा। शेष दिनों में आप शेर बाजार, जुआ और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से आय प्राप्ति की अच्छी योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे। आप अपने बच्चों के प्रदर्शन से खुश रहेंगे। आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे व आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि में सहायक होंगे।

शुभ तिथियां: 01, 06, 17, 23

01 से 09 मई- सप्ताह के शुरु की अवधि आपकी शिक्षा, बाल-कल्याण, मनोरंजन से सम्बन्धित गतिविधियों, जुआ, शेर बाजार में कारोबार, परामर्श कार्य और भावनात्मक सम्बन्धों के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनी हुई है। सप्ताह भर आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता और उत्साह बरकरार रहेगा।

10 से 16 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कार्यक्षेत्र से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यस्थल पर आप अधिकार, पद और स्थिति में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम भाग आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति को दर्शा रहा है।

17 से 23 मई- सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्म विश्वास और धैर्य के लिए अनुकूल नहीं है। कार्यों में अवांछित बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह मध्य में भी भाग्य के मार्ग में बाधाएं बनी रहेंगी। विशेष रूप से सप्ताह के अंत: में आपको आश्चर्यजनक रूप से परिवार का समर्थन मिलेगा। यह समय विशेष रूप से आपको वित्तीय लाभ और परिवार में खुशहाली के लिए अनुकूल रहेगा। आप **सर्व सुख प्राप्ति सौभाग्य शक्ति दीक्षा** ग्रहण करें। **न्यौ. ₹ 1500/-**

24 से 31 मई- सप्ताह की शुरुआत में आपकी सामाजिक गतिविधियां अपने उच्च स्तर पर रहेंगी। सप्ताह मध्य की अवधि आपके पारिवारिक प्रसन्नता के लिये अनुकूल है। लेकिन किसी से वाद-विवाद होने के कारण आपकी मानसिक शांति भंग होने की संभावना बन रही है। सप्ताह के शेष भाग में आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे।

शुभ तिथियां: 05, 07, 19, 26